



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, अक्टूबर 28—नवम्बर 3, 2007, शनिवार/कार्तिक 6—कार्तिक 12, 1929  
No. 19] NEW DELHI, OCTOBER 28—NOVEMBER 3, 2007, SATURDAY/KARTIKA 6—KARTIKA 12, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2007

का.नि.आ. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना समूह 'ग' (आशुलिपिक श्रेणी-II और आशुलिपिक श्रेणी-III) भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना समूह 'ग' (आशुलिपिक श्रेणी-II और आशुलिपिक श्रेणी-III) भर्ती संशोधन नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सेना समूह 'ग' (आशुलिपिक श्रेणी-II और आशुलिपिक श्रेणी-III) भर्ती नियम, 2004 की अनुसूची के स्तम्भ (10) के अधीन "2 वर्ष" प्रविष्टि के स्थान पर "सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा सं. 15321/स्टेनो II/एम पी-4(सिव)(ए)/710/आर आर/07/रक्षा (नि.)]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 4 में का.नि.आ. 146 तारीख 3-9 अक्टूबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 17th October, 2007

S.R.O. 62.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Army Group 'C' (Stenographer Grade II and Stenographer Grade III) Recruitment Rules, 2004 namely :—



1. (1) These rules may be called the Army Group 'C' (Stenographer Grade II and Stenographer Grade III) Recruitment Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Army Group 'C' (Stenographer Grade II and Stenographer Grade III) Recruitment Rules, 2004, in the Schedule, under column (10), for the entry "2 years", the entry "Two years for direct recruits" shall be substituted.

[F. No. 15321/Steno II/MP-4 (Civ)(a)/710/RR/07/D(Appts)]

C. J. JOSE, Under Secy.

**Note :—**The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4, *vide* number SRO 146 dated the 3rd—9th October, 2004.

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2007

**का.नि.आ. 63.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना इंजीनियरी महाविद्यालय, पुणे में रक्षा सेवा सिविलियन समूह 'ग' और समूह 'घ' में बैरक और भंडार पर्यवेक्षक, श्रेणी-2 तथा बैरक और भंडार पर्यवेक्षक, श्रेणी-1 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना इंजीनियरी महाविद्यालय, समूह 'ग' (अनुसचिवीय, गैर औद्योगिक और असैनिक) इंजीनियरी सेवा भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **आरंभिक गठन.**—उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में उल्लिखित पदों के उन पदधारियों को, जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण कर रहे हैं, इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा और उनके द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवाओं को, उच्चतर पद पर प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिए, परीक्षा, पुष्टि और पेंशन के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

6. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति :—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।



## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बैरक और भंडार पर्यवेक्षक, श्रेणी-2	2* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अननुसचिवीय अराजपत्रित, गैर-औद्योगिक	5000-150-8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : ऐसा भंडारी, श्रेणी-1, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और बैरक और भंडार पर्यवेक्षक, श्रेणी-2 परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रतिनियुक्ति : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समान, समतुल्य पदों पर कार्यरत व्यक्ति।	प्रोन्नति के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) कमांडेंट या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का उसका नामनिर्देशित (2) एक मेजर या समतुल्य सिविल अधिकारी (3) कमीशन प्राप्त अधिकारी या सिविल राजपत्रित समूह 'क' अधिकारी, जो विभाग से संबद्ध न हो।	लागू नहीं होता -अध्यक्ष -सदस्य -सदस्य



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बैरक और भंडार पर्यवेक्षक, श्रेणी-1	02* (2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय, अराजपत्रित, गैर-औद्योगिक	5500-175- 9000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(8)	(9)	(10)	(11)			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।			
(12)	(13)	(14)				
प्रोन्नति : ऐसा बैरक/भंडार पर्यवेक्षक, श्रेणी-2, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और बैरक और भंडार पर्यवेक्षक, श्रेणी-1 परीक्षा उत्तीर्ण की है।	प्रोन्नति के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) कमांडेंट या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का उसका नामनिर्देशित (2) एक मेजर या समतुल्य सिविल अधिकारी (3) कमीशन प्राप्त अधिकारी या सिविल राजपत्रित समूह 'क' अधिकारी, जो विभाग से संबद्ध न हो ।	लागू नहीं होता । --अध्यक्ष --सदस्य --सदस्य				
प्रतिनियुक्ति : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विचरनाओं में समान, समतुल्य पदों पर कार्यरत व्यक्ति ।						

[फा. सं. पी.सी.-39560/सिव./सी.एम.ई./वोल्यू. 13/ई.।ए/525/आर.आर./डी. (ए)/07]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

New Delhi, the 19th October, 2007

**S.R.O. 63.**—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Supervisor Barrack and Store, Grad-II and Supervisor Barrack and Store, Grade-I; in the Civilians in Defence Services (Group 'C' and 'D') in the College of Military Engineering, Pune, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called College of Military Engineering, Group 'C' (Non-Ministerial, Non-Industrial and Non-Military) Engineering Service Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and scales of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment age-limit, qualification and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid schedule.

5. **Initial Constitution.**—The incumbents of the posts mentioned in column 1 of the said Schedule and who, on the date of commencement of these rules, are holding the posts on regular basis, shall be deemed to have been appointed under these rules and the services rendered by them on regular basis, shall be taken into account for the purposes of



promotion to the higher post, probation, confirmation and pension.

**6. Disqualification.**—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**7. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, be order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**8. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection Post	Whether benefit of added years of service admissible post under rule 30 of the Central Civil Service Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Supervisor Barrack and Stores Grade-II	02* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Ministerial. Non-Gazetted, Non-Industrial	Rs. 5000-150-8000	Non-selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruitments		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the post to be filled by various methods	
(8)		(9)		(10)	(11)	
Not applicable		Not applicable		Not applicable	By promotion failing which by deputation	



In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, to the grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
--	--	---

(12)	(13)	(14)
<b>Promotion :</b> Store Keeper Grade I with 3 years regular service in the grade and who have passed Supervisor Barrack and Store Grade-II Examination.	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of :—</b> (i) Commandant or his nominee with the rank of Lt. Colonel. (ii) One major or equivalent Civil Officer (iii) Commissioned Officer or Civil Gazetted Group 'A' officer not connected with the Department.	Not applicable.
<b>Deputation :</b> Persons working in similar, equivalent posts in the lower formations of Defence Services.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Supervisor Barrack and Stores Grade-I	02* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Ministerial, Non-Gazetted, Non-Industrial	Rs. 5500-175-9000	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

(12)	(13)	(14)
<b>Promotion :</b> Supervisor Barrack Store Grade II with 3 years regular service in the grade and who have passed Supervisor Barrack and Store Grade-I Examination.	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of :—</b> (i) Commandant or his nominee with the rank of Lt. Colonel. (ii) One Major or equivalent Civil Officer (iii) Commissioned Officer or Civil Gazetted Group 'A' Officer not connected with the Department.	Not applicable.
<b>Deputation :</b> Persons working in similar, equivalent posts in the lower formations of Defence Services.		

[F. No. PC-39560/Civ/CME/Vol-XIII/EIA/525/RR/D(A)/07]

C. J. JOSE, Under Secy.